



आग से सुरक्षा के उपाय

आग बहुत तेजी से फैलती है और आग से मृत्यु हो सकती है।

आग का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें।

- आपदा के समय घर से बाहर निकलने की योजना पहले से तैयार रखें और परिवार के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी सुनिश्चित करें।
- आँखें बन्द कर बाहर जाने के रास्ते पर निकलने का नियमित अभ्यास करें।
- बाहर निकलने का रास्ता हमेशा खाली रखें।
- गोदामों एवम् कार्यस्थलों पर कूड़ा जमा न होने दें।
- ज्वलनशील सामग्रियों को अग्निरोधी डिब्बों में बंद रखें/व्यर्थ संग्रह ना करें।

आग से होने वाले हादसों को थोड़ी सी सावधानी से टाला जा सकता है

- रसोई घर में कार्य करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। इस्तेमाल के बाद गैस के सिलिण्डर के रेगुलेटर को बंद करने का नियम बना लें।
- इस्तेमाल के बाद बिजली के उपकरणों को बन्द कर दें तथा प्लग को स्विच बोर्ड से निकाल दें। घर के पुराने तारों, टूटी फिटिंग आदि को बिजली मिस्त्री को दिखा कर दुरुस्त करवाएँ। बिजली के तारों पर जरूरत से ज्यादा लोड ना डालें। स्विच के एक ही पाइंट पर ज्यादा भार न डालें। उचित गुणवत्ता वाले तारों का प्रयोग करें।
- हीटर को कपड़ों, परदों एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों से कम से कम तीन फीट की दूरी पर रखें।
- बच्चों को आग से बचने की तरीके बताएँ। कैंरोसिन तेल, गैस सिलिण्डर, बिजली के उपकरण जैसे :- हीटर, आयरन, हेयर ड्रायर रॉड आदि को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- अपने घरों, विद्यालयों एवं कार्यालयों में अग्निशामक यंत्रों को चालू हालत में रखें और इनका प्रयोग करना सीखें।



FIRE आपके शरीर या कपड़ों में आग लगने पर **FIRE**
खड़े ना रहें। मुँह को ढँककर जमीन पर लेट जाएँ
और अपने आप को उलटते-पलटते रहें।

**Diya
(Diversified Intervention Of Youth Awareness)**

www.diyaets.org.in, E-mail: info.diyaets@gmail.com & diyaets@gmail.com

☎ & © +91-8750099400